

**@shahjahanpupol**

**प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 24.12.2020**

**थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दो माह पूर्व हुई 11 वर्षीय बच्चे की हत्या का किया सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद ।**

दिनांक 19.11.20 को इरमान पुत्र काशीराम नि0 तालीगाव देवरिया थाना तिलहर शाहजहाँपुर द्वारा थाना पर सूचना दी कि उसका बेटा प्रियाशुं उम्र करीब 11 वर्ष गायब है तथा दिनांक 20.11.20 को प्रियाशुं का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ । जिस पर उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा थाना तिलहर पर तत्काल मु0अ0सं0 918/20 धारा 363/302/301 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

बच्चे की हुयी हत्या को पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा गम्भीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन मे पुलिस टीमे गठित कर हत्या का शीघ्र अनावरण कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये । तथा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा स्वयं पुलिस टीम द्वारा की जा रही प्रत्येक दिवस की कार्यवाही की मॉनिटरिंग की जाने लगी ।

इसी क्रम मे गहनता से विवेचना करने पर अभियुक्त रामरहीश व रमाकान्त का नाम प्रकाश मे आया जिसे आज दिनांक 24.12.20 को समय करीब 11.30 बजे तालीपुरदेवरिया नहर पुलिया से दोनो अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया । तथा अभियुक्तो की निशानदेही पर उनके घर के कमरे की टांड से आला कत्ल चारपाई की पाटी बरामद की गयी । गिरफ्तारी एव बरामदगी के आधार पर थाना पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार किये गये अभिगण का विवरण:-**

1. रामरहीश पुत्र चोखेलाल निवासी ग्राम ताल्वीपुर दियुरिया थाना तिलहर जिला शाहजहाँपुर
2. रमाकान्त पुत्र रामरहीश निवासी ग्राम ताल्वीपुर दियुरिया थाना तिलहर जिला शाहजहाँपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

1-आला कत्ल चारपाई की पाटी ।

**अभियुक्त पर पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0स0 918/20 धारा 363/302/201 भादवि

**अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री दीपक शुक्ल थाना तिलहर शाहजहाँपुर ।
2. व0उ0नि0 श्री विनोद कुमार मौर्य थाना तिलहर शाहजहाँपुर ।
3. उ0नि0 कुलदीप कुमार थाना तिलहर शाहजहाँपुर ।
4. उ0नि0 विकास कुमार थाना तिलहर शाहजहाँपुर ।
5. का0 2258 राहुल चौधरी थाना तिलहर शाहजहाँपुर ।
6. का0 2259 दीपक कुमार थाना तिलहर शाहजहाँपुर ।
7. म0का0 2392 कोमल पुण्डीर थाना तिलहर शाहजहाँपुर ।
8. म0का0 2432 निकिता शर्मा थाना तिलहर शाहजहाँपुर ।